



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 25, 2007/माघ 5, 1928

No. 77]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2007/MAGHA 5, 1928

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2007

का.आ. 80(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 3 और नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो का पुनर्गठन और भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 278(अ), तारीख 31 मार्च, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 से 70 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारत सरकार —अध्यक्ष
2. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, भारत सरकार —उपाध्यक्ष
3. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार —सदस्य पदेन
4. महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली —सदस्य पदेन

संसद सदस्य

5. रिक्त —सदस्य, लोक सभा
6. रिक्त —सदस्य, राज्य सभा

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

7. अपर सचिव —सदस्य  
उपभोक्ता मामले विभाग,  
कृषि भवन, नई दिल्ली
8. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, —सदस्य  
उपभोक्ता मामले, खाद्य और  
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,  
कृषि भवन, नई दिल्ली
9. अपर सचिव/संयुक्त सचिव —सदस्य  
वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन,  
नई दिल्ली

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि

10. तमिलनाडु के गुणवत्ता और मानक पर —सदस्य  
प्रशासनिक नियंत्रण वाले विभाग के  
प्रभारी मंत्री
11. गुजरात के गुणवत्ता और मानक पर —सदस्य  
प्रशासनिक नियंत्रण वाले विभाग  
के प्रभारी मंत्री
12. उड़ीसा के गुणवत्ता और मानक पर —सदस्य  
प्रशासनिक नियंत्रण वाले विभाग  
के प्रभारी मंत्री
13. हरियाणा के गुणवत्ता और मानक पर —सदस्य  
प्रशासनिक नियंत्रण वाले विभाग के  
प्रभारी मंत्री
14. त्रिपुरा के गुणवत्ता और मानक पर —सदस्य  
प्रशासनिक नियंत्रण वाले विभाग के  
प्रभारी मंत्री

**मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि और  
उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति**

15. उपभोक्ता शिक्षा के हित में स्वैच्छिक—सदस्य  
संगठन (वाइस) 441, जंगपुरा,  
मथुरा रोड, नई दिल्ली-110014

16. अध्यक्ष, —सदस्य  
कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी ऑफ  
इंडिया, मुंबई।

**किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले  
व्यक्ति अथवा किसान-संगठनों के प्रतिनिधि**

17. श्री पी. चेंगल रेड्डी, —सदस्य  
महासचिव,  
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन  
फार्मर्स एसोसिएशन,  
फ्लैट नं. 209, विजय टावर,  
शांति नगर, हैदराबाद

**अखिल भारतीय स्तर के उद्योग संघों अथवा  
परिसंघों के प्रतिनिधि**

18. अध्यक्ष, —सदस्य  
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री  
(सी आई आई),  
23-26, औद्योगिक क्षेत्र,  
नई दिल्ली 110003

19. अध्यक्ष, —सदस्य  
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स  
ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिककी)  
फेडरेशन हाऊस, तानसेन मार्ग,  
नई दिल्ली-110001

20. अध्यक्ष, —सदस्य  
एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स  
एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम),  
इलाहाबाद बिल्डिंग,  
17 संसद मार्ग,  
नई दिल्ली-110001

**केन्द्रीय अथवा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  
के मुख्य कार्यपालक**

21. अध्यक्ष, —सदस्य  
गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड,  
नई दिल्ली

**राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार प्राप्त औद्योगिक  
संगठन के अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक**

22. श्री दीपक पुरी, —सदस्य  
अध्यक्ष,  
मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड,  
ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश  
**वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं, तकनीकी,  
शैक्षिक और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि**

23. निदेशक, —सदस्य  
भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान,  
नई दिल्ली

24. निदेशक, —सदस्य  
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला,  
डा. के. एस. कृष्णन रोड,  
नई दिल्ली-110012

25. महानिदेशक, —सदस्य  
नेशनल काउंसिल ऑफ सीमेंट  
एंड बिल्डिंग मैटेरियल  
पी-21, साउथ एक्सटेंशन-II,  
नई दिल्ली-110049

[फा. सं. 2/10/2006-बी आई एस]

रिचन टेम्पो, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना दिनांक 31-03-1987 के का.आ. 278(अ)  
के तहत अधिसूचित की गई थी जिसको बाद में सरकारी  
राजपत्र में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा  
संशोधित किया गया था :-

- (1) का.आ. 395(अ) तारीख 16-04-1987
- (2) का.आ. 800(अ) तारीख 25-08-1987
- (3) का.आ. 251(अ) तारीख 31-03-89
- (4) का.आ. 532(अ) तारीख 18-07-1994
- (5) का.आ. 781(अ) तारीख 13-09-1995
- (6) का.आ. 391(अ) तारीख 06-02-1998
- (7) का.आ. 2048(अ) तारीख 06-10-1998
- (8) का.आ. 432(अ) तारीख 03-05-2000
- (9) का.आ. 1019(अ) तारीख 20-09-2002
- (10) का.आ. 1185(अ) तारीख 05-11-2002
- (11) का.आ. 199(अ) तारीख 11-02-2003
- (12) का.आ. 240(अ) तारीख 21-02-2003
- (13) का.आ. 519(अ) तारीख 09-05-2003
- (14) का.आ. 566(अ) तारीख 21-05-2003
- (15) का.आ. 845(अ) तारीख 23-07-2004
- (16) का.आ. 90(अ) तारीख 25-01-2005

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION  
(Department of Consumer Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2007

**S.O. 80(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government hereby re-constitutes the Bureau of Indian Standards consisting of the following members, with effect from the date of publication of this notification and for that purpose makes the further following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Civil Supplies) number S.O. 278(E) dated the 31st March, 1987, namely:—

In the said notification, for serial numbers 1 to 70 (both inclusive) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| “1. Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India.          | President                   |
| 2. Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India. | Vice President              |
| 3. Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India.                            | Member<br><i>ex-officio</i> |
| 4. Director General, Bureau of Indian Standards, New Delhi.                                   | Member<br><i>Ex-officio</i> |

**Members of Parliament**

- |           |                        |
|-----------|------------------------|
| 5. Vacant | Member,<br>Lok Sabha   |
| 6. Vacant | Member,<br>Rajya Sabha |

**Persons representing the Ministries and Departments  
of the Central Government**

- |  |        |
|--|--------|
| 7. Additional Secretary, Department of Consumer Affairs, Krishi Bhavan, New Delhi.   | Member |
| 8. Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Krishi Bhavan, New Delhi. | Member |

- |   |        |
|---|--------|
| 9. Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi. | Member |
|---|--------|

**Representatives from the State Governments and the  
Union Territories**

- |   |        |
|---|--------|
| 10. Minister in charge of the Department having administrative control over quality and standards of Tamilnadu. | Member |
| 11. Minister in charge of the Department having administrative control over quality and standards of Gujarat.   | Member |
| 12. Minister in charge of the Department having administrative control over quality and standards of Orissa.    | Member |
| 13. Minister in charge of the Department having administrative control over quality and standards of Haryana.   | Member |
| 14. Minister in charge of the Department having administrative control over quality and standards of Tripura.   | Member |

**Representatives of Recognised Consumer  
Organisations and Persons representing  
consumer interests**

- |   |        |
|---|--------|
| 15. Voluntary Organization in Interest of Consumer Education (VOICE) 441, Jangpura, Mathura Road, New Delhi - 110014. | Member |
| 16. President, Consumer Guidance Society of India, Mumbai.  | Member |

**Persons representing farmers' interests or farmers  
associations**

- |   |        |
|---|--------|
| 17. Shri P.Chengal Reddy, Secretary General, Confederation of Indian Farmers' Association, Flat No. 209, Vijaya Tower, Shanti Nagar, Hyderabad. | Member |
|---|--------|

**Presidents of Industry associations or federations of all-  
India level**

- |  |        |
|--|--------|
| 18. President, Confederation of Indian Industry (CII), 23-26, Industrial Area, New Delhi-110003. | Member |
|--|--------|

19. President, Member  
Federation of Indian Chambers  
of Commerce and Industry  
(FICCI), Federation House,  
Tansen Marg,  
New Delhi-110001.

20. President, Member  
Associated Chambers of  
Commerce and Industry  
of India (ASSOCHAM),  
Allahabad Bank Building,  
17, Parliament Street,  
New Delhi-110001.

**Chief Executive of Central or State Public Sector  
Enterprise**

21. Chairman, Member  
Gas Authority of India Limited,  
New Delhi.

**Chairman or Managing Director of Industrial  
Organization who is awardee for the Rajiv  
Gandhi National Quality Award**

22. Shri Deepak Puri, Member  
Chairman,  
Mosier Baer India Limited,  
Greater NOIDA,  
Uttar Pradesh

**Representatives of Scientific and Research Institutions,  
Technical, Educational and Professional  
Organizations**

23. Director Member  
Indian Institute of  
Technology, New Delhi.

24. Director, Member  
National Physical Laboratory,  
Dr. K.S. Krishnan Road,  
New Delhi-110012.

25. Director General, Member  
National Council of Cement  
and Building Materials  
(NCCBM), P-21,  
South Extension II,  
New Delhi-110049

[F. No. 2/10/2006-BIS]

RINCHEN TEMPO, Jt. Secy.

**Note:**—The principal notification was notified *vide*  
S.O. 278(E) dated 31-3-1987 which was  
subsequently amended *vide* notifications  
published in the Official Gazette *vide* :—

- (i) S.O. 395(E) dated 16-04-87
- (ii) S.O. 800(E) dated 25-08-87
- (iii) S.O. 251(E) dated 31-03-89
- (iv) S.O. 532(E) dated 18-07-94
- (v) S.O. 781(E) dated 13-09-95
- (vi) S.O. 391(E) dated 06-02-98
- (vii) S.O. 2048(E) dated 06-10-98
- (viii) S.O. 432(E) dated 03-05-2000
- (ix) S.O. 1019(E) dated 20-09-2002
- (x) S.O. 1185(E) dated 05-11-2002
- (xi) S.O. 199(E) dated 11-02-2003
- (xii) S.O. 240(E) dated 21-02-2003
- (xiii) S.O. 519(E) dated 09-05-2003
- (xiv) S.O. 566(E) dated 21-05-2003
- (xv) S.O. 845(E) dated 23-07-2004
- (xvi) S.O. 90(E) dated 25-01-2005